



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1944 (श10)  
(सं० पटना 240) पटना, सोमवार, 25 अप्रील 2022

सं० 27/आरोप-01-39/2020 सा0प्र0—5985  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
19 अप्रील 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-517/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध भोजपुर जिला अंतर्गत उनके पदस्थापन अवधि (दिनांक-19.02.2016 से 11.02.2017) के बीच सी०एम०आर० गोदाम में भारी मात्रा में खाद्यानों का विभिन्न गोदामों में भंडारित रहने, भंडारित खाद्यान के उपावंटन एवं उठाव के संबंध में समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण सी०एम०आर० गोदाम में भंडारित वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अंतर्गत प्राप्त अधिप्राप्त 121837.237 क्विंटल को टी०पी०डी०एस० में उपयोग हेतु मुख्यालय स्तर से निर्गत उपावंटन के विरुद्ध सी०एम०आर० गोदाम के निष्पादन में इनके द्वारा फिफो पद्धति का अनुपालन नहीं करने, सहायक प्रबंधक का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति पर सी०एम०आर० का प्रभार नहीं रखने के कारण 121837.237 क्विंटल सी०एम०आर० चावल की गुणवत्ता ह्रास हुआ, जिससे निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, से संबंधित आरोप एवं पूरक आरोप पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त क्रमशः विभागीय पत्रांक-14033 दिनांक-07.11.2017 एवं पत्रांक-6226 दिनांक-15.05.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके क्रम में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक-20.11.2017 एवं दिनांक-28.05.2018) समर्पित किया गया है। श्री सिंह से प्राप्त उक्त दोनों स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8040 दिनांक-18.06.2018 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-227 दिनांक-21.01.2022 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए निगम के मंतव्य में सहमति व्यक्त की गयी।

2. विदित हो कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 43(बी) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस विभागीय कार्यवाही के उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी होंगे।

4. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रविन्द्रनाथ चौधरी,  
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 240-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>